



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सीबीएसई/समन्वय/आईपीएस/2022

29.12.2022

परिपत्र

परीक्षा-2022 के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) में ऑकड़े प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।

जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर सूचित किया गया है, विभिन्न गतिविधियों के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कार्यात्मक बनाया गया था। बोर्ड को अपेक्षा थी कि विद्यालय आईपीएस की प्रणाली को समझेंगे और प्रणाली में सही डेटा अपलोड करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रणाली में प्रत्येक भुगतान सफल हो। स्पष्ट निर्देशों और उपयोगकर्ता पुस्तिका के बावजूद, अनेक स्कूलों ने अभी तक आईपीएस में अपना डेटा जमा नहीं किया है। इसी तरह, लाभार्थी के नाम या बैंक खाता संख्या या IFSC कोड में त्रुटि के कारण कई पदाधिकारियों और विद्यालयों के भुगतान विफल हो गए हैं या बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं।

यह एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि विद्यालय अपने आईपीएस खाते में लॉग-इन करने के बाद "विफल" और "अस्वीकृत" भुगतानों की जांच करके सही डेटा भर सकते हैं और बैंक विवरण में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। आईपीएस पोर्टल पर नीचे दी गई तिथियों के अनुसार ही प्रविष्टि एवं संपादन/सुधार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। निर्धारित तिथियों के बाद परीक्षा-2022 के लिए आईपीएस प्रणाली बंद कर दी जाएगी।

आईपीएस प्रणाली का विवरण	प्रारंभ तिथि	वह तिथि जब तक नई प्रविष्टियों की अनुमति होगी	वह तिथि जब तक सुधार की अनुमति होगी
विद्यालय परिणाम समिति 2020-21	09/2022	31.01.2023	10.02.2023
टर्म- I परीक्षा 2021-22	10.05.2022	31.01.2023	10.02.2023
टर्म- II परीक्षा 2021-22	28.11.2022	31.01.2023	10.02.2023
प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2021-22	29.12.2022	31.01.2023	10.02.2023

इसलिए सभी विद्यालयों से अनुरोध है कि आईपीएस में डेटा जमा करने और सुधार (यदि कोई हो) की गतिविधियों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करें।

एक बार परीक्षा-2022 के लिए आईपीएस बंद होने के बाद, इसे परीक्षा-2023 के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

हस्ता/०
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रति- वेब प्रबंधक को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

